



11. यदि उपभोक्ता का उपयोगिता फलन $U = X_1 X_2$ है और बजट प्रतिबंध $M = P_1 X_1 + P_2 X_2$ है, तो संतुलन स्तर पर, X_1 के लिए माँग फलन होगा

(A) $\frac{M}{2P_1}$ (B) $\frac{-M}{2P_1^2}$
 (C) $\frac{M}{2P_1^2}$ (D) $\frac{-M}{2P_1}$

12. जनान्किकीय संक्रमण का अभिप्राय है

- (A) कम जन्म दर और उच्च मृत्यु दर की स्थिति से उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर की स्थिति की ओर बढ़ना
 (B) उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर की स्थिति से कम जन्म दर और कम मृत्यु दर की स्थिति की ओर बढ़ना
 (C) उच्च मृत्यु दर और कम जन्म दर की स्थिति से उच्च मृत्यु दर और उच्च जन्म दर की स्थिति की ओर बढ़ना
 (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

13. त्वरक गुणांक व्यक्त किया जा सकता है, इस रूप में

(A) $\frac{\Delta Y}{\Delta C}$ (B) $\frac{\Delta Y}{\Delta I}$
 (C) $\frac{\Delta C}{\Delta I}$ (D) $\frac{\Delta I}{\Delta C}$

14. इनमें से कौन सा सन्तुलन का एक प्रकार नहीं है ?

- (A) सम्भावित (B) स्थिर
 (C) अस्थिर (D) तटस्थ

15. "तटस्थ मुद्रा" शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया ?

- (A) राबर्टसन (B) हेयक
 (C) विकस्टीड (D) फ्रीडमैन

11. If the consumption function of a consumer is $U = X_1 X_2$ and the constraint is $M = P_1 X_1 + P_2 X_2$ at the equilibrium level, the demand function for X_1 will be

(A) $\frac{M}{2P_1}$ (B) $\frac{-M}{2P_1^2}$
 (C) $\frac{M}{2P_1^2}$ (D) $\frac{-M}{2P_1}$

12. Demographic transition means

- (A) Shift from the condition of low birth and high death rates to high birth and high death rates
 (B) Shift from the condition of high birth and high death rates to high birth and low death rates
 (C) Shift from the condition of low birth and low death rates to high birth and high death rates
 (D) None of the above

13. The accelerator coefficient may be expressed as

(A) $\frac{\Delta Y}{\Delta C}$ (B) $\frac{\Delta Y}{\Delta I}$
 (C) $\frac{\Delta C}{\Delta I}$ (D) $\frac{\Delta I}{\Delta C}$

14. Which of them is not a type of equilibrium ?

- (A) Probable (B) Stable
 (C) Unstable (D) Neutral

15. Who has first used the term "Neutral of Money" ?

- (A) Robertson (B) Hayek
 (C) Wiksted (D) Friedman



93. भारत में टेलीकॉम की नियामक संस्था कौन सी है ?
 (A) TRAI (B) SEBI
 (C) HTML (D) BSNL
94. 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का जन्म हुआ ?
 (A) विश्व व्यापार संगठन
 (B) विश्व बैंक
 (C) अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ
 (D) इनमें से कोई नहीं
95. खुले बाजार की क्रियायें सम्बद्ध हैं
 (A) रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से अनुसूचित बैंकों द्वारा उधार लेना
 (B) अनुसूचित बैंकों द्वारा उद्योग और व्यापार को उधार देना।
 (C) रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय
 (D) जमा को जुटाना
96. पूँजी पर्याप्तता अनुपात अथवा जोखिम भारित परिसम्पत्ति अनुपात है
 (A) $\frac{\text{कुल पूँजी फंड}}{\text{जोखिम भारित परिसम्पत्तियाँ}} \times 100$
 (B) $\frac{\text{जोखिम भारित परिसम्पत्तियाँ}}{\text{कुल पूँजी फंड}} \times 100$
 (C) $\frac{\text{जोखिम भारित पूँजी फंड}}{\text{जोखिम भारित परिसम्पत्तियाँ}} \times 100$
 (D) इनमें से कोई नहीं

93. Which is the regulatory body of telecommunication in India ?
 (A) TRAI (B) SEBI
 (C) HTML (D) BSNL
94. Which International organisation was formed at the Bretton Woods Conference of 1944 ?
 (A) WTO
 (B) World bank
 (C) IDA
 (D) None of these
95. Open market operations refers to
 (A) Borrowing by scheduled banks from the RBI
 (B) Lending by scheduled banks to industry and trade
 (C) Purchase and sale of government securities by the RBI
 (D) Deposit mobilisation
96. Capital Adequacy Ratio (CAR) or Capital to Risk weighted Assets Ratio (CRAR) is
 (A) $\frac{\text{Capital Fund}}{\text{Risk weighted Assets}} \times 100$
 (B) $\frac{\text{Risk weighted Assets}}{\text{Capital Fund}} \times 100$
 (C) $\frac{\text{Risk weighted Capital Fund}}{\text{Risk weighted Assets}} \times 100$
 (D) None of the above

113. एक निम्नलिखित बिंदु पर निम्नलिखित संतुष्टि है।
(A) अधिकतम संतुष्टि

(B) समान संतुष्टि

(C) ऊपरी बिंदु पर अधिक संतुष्टि

(D) ऊपरी बिंदु पर कम संतुष्टि

114. एक निम्नलिखित बिंदु पर निम्नलिखित संतुष्टि है।
(A) अधिकतम संतुष्टि

(A) $\frac{P - MC}{P}$

(B) $\frac{AR}{AR - MR}$

(C) $\frac{MR}{AR - MR}$

(D) $\frac{AR - MR}{AR}$

115. भारत में वित्त प्रणाली की वित्त-व्यवस्था प्रणाली है।

(A) स्वतंत्र वित्त व्यवस्था

(B) संघीय वित्त व्यवस्था

(C) एकाकी वित्त व्यवस्था

(D) स्थानीय वित्त व्यवस्था

116. व्यावसायिक बैंक साख का निर्माण करते हैं।

(A) कुछ भी नहीं

(B) अपनी प्रतिभूतियों के आधार पर

(C) अपनी कुल परिसम्पत्तियों के आधार पर

(D) अपनी नकद जमा के आधार पर

114. The different combinations on a indifference curve show

(A) Maximum satisfaction

(B) Same satisfaction

(C) Greater satisfaction at upper point

(D) Less satisfaction at upper point

115. The degree of monopoly power can be measured by the formula

(A) $\frac{P - MC}{P}$

(B) $\frac{AR}{AR - MR}$

(C) $\frac{MR}{AR - MR}$

(D) $\frac{AR - MR}{AR}$

116. Which financial system is found in India ?

(A) Free finance system

(B) Federal finance system

(C) Unitary finance system

(D) Local finance system

117. Commercial Banks create credit

(A) Out of nothing

(B) On the basis of their securities

(C) On the basis of their total assets

(D) On the basis of their cash deposits